



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 वैशाख 1944 (श10)  
(सं0 पटना 293) पटना, शुक्रवार, 13 मई 2022

---

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

---

अधिसूचना  
13 मई 2022

सं० 9/लि0सं0-10-01/2018 गृ0आ0 4681—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस के क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2019 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (i) यह नियमावली 'बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली, 2022' कही जा सकेगी।  
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(iii) यह संशोधन दिनांक-15.07.2021 से प्रभावी होगा।
- बिहार पुलिस के क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2019 के नियम-5 के उप-नियम-‘क’ एवं उप-नियम-‘ख’ को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-  
(क) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद पुलिस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के इण्टरमीडिएट योग्यताधारी सुयोग्य कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) कर्मियों से प्रोन्नति द्वारा राज्य वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।  
(ख) सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्याचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
के० सेंथिल कुमार,  
सरकार के सचिव।

### The 13<sup>th</sup> May 2022

No-9/ClericalCadre-10-01/2018 H.P 4681—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Police Regional Clerical Cadre (Requirement and conditions of service) Rules, 2019 :-

- 1- Short title, extent and commencement. -
  - (i) These Rules may be called as the Bihar Police Regional Clerical Cadre (Requirement and conditions of service) Amendment Rules, 2022
  - (ii) It Shall extend to whole of the State of Bihar.
  - (iii) It amendment Shall come into force from 15-07-2021.
- 2- Sub-rule-'a' and sub-rule-'b' of rule-5 of Bihar Police Regional Clerical Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2019 Shall be Substituted by the following:-
  - a) 85 percent of the posts of lower Division clerks will be filled by direct recruitment and 15 percent posts will be filled by promotion on the basis of State level Seniority-cum-merit from eligible office Attendants/Attendants (Specialized) personnel of regional offices of police organization having intermediate qualification.
  - b) Direct recruitments will be made on the recommendation of the commission in the category of lower divisional clerks. The dependents of such Government servants who have died during their service, may be considered for appointment on compassionate grounds against the vacant posts available for direct recruitment, fulfilling the requisite criteria, for which the recommendation of the Commission will not be required.

Provided that after the appointment of dependents of Government servants who died in service, requisition for the remaining vacancies of each calendar year shall be sent to the Commission by the month of December of the preceding calendar year.

By the order of Governor of Bihar,  
K. Senthil Kumar,  
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 293-571+250-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>